

के - 15016/185/2015 - एससी - I

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) की तैयारी करने के लिए मुख्य कार्यकलापों की सूची।

स्मार्ट शहर प्रतिस्पर्धा के चरण - 1 की समाप्ति के बाद, राज्यों/यूएलबी को प्रतिस्पर्धा के चरण - 2 के लिए तैयारी करनी है। स्मार्ट शहर मिशन (एससीएम) मार्गनिर्देशों के पैरा 9.1.2 के अनुरूप, भावी 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक को अपना स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) तैयार करना है और सचिव (शहरी विकास) ने तारीख 28 अगस्त, 2015 के अर्द्ध - शासकीय पत्र द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रमुख सचिवों/प्रशासकों से स्मार्ट शहर प्रतिस्पर्धा को शुरू करने और 15 दिसंबर, 2015 से पूर्व स्मार्ट शहर प्रस्ताव (एससीपी) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

2. चूंकि समय कम है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए प्रारूप में एससीपी प्रणालीगत ढंग से तैयार करना होगा और प्रस्ताव को ऑनलाइन जमा करना होगा। कार्यकलापों को शुरू करने और पूरा करने की समय - सीमाओं के साथ मुख्य कार्यकलापों की सूची संलग्न है।

3. अत्याधिक प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव संलग्नक में निर्धारित कार्यकलापों का प्रणालीगत और समय पर समापन का परिणाम होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र किसी भी संख्या में अतिरिक्त कार्यकलापों/उप - कार्यकलापों को शामिल कर सकते हैं और केवल संलग्न की गई सूची तक अपने कार्यकलापों की संख्या को प्रतिबंधित नहीं रखना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यकलापों को पूरा करने और उन्हें नियमित रूप से ऑनलाइन अद्यतन करने का अनुरोध है।



(साजिश कुमार एन)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष सं.: 23062472

प्रति -

स्मार्ट सिटीज के नगर आयुक्त/सभी प्रमुख सचिव (यूडी/एमए)।

महत्वपूर्ण गतिविधियां - शुरुआत तथा समाप्ति तिथियां

क्र.सं.	दौरा	महत्वपूर्ण गतिविधि	शुरुआत	समाप्त	अवधि (दिन)
1	एक	फाईनालाईज कंसल्टिंग फर्म/हैंडहोल्डिंग एजेंसी	01 - सितम्बर	05 - अक्टूबर	35
2		नागरिकों के समूह, नागरिकों के साथ मिशन पर वार्ता	25 - सितम्बर	05 - अक्टूबर	15
3		नागरिकों और छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता	01 - अक्टूबर	15 - अक्टूबर	15
4		आईडियाज कैम्प की तैयारी	01 - अक्टूबर	05 - अक्टूबर	5
5		भाग लेने वाले आईडियाज कैम्प	06 - अक्टूबर	07 - अक्टूबर	2
6	दो	विकास के लिए क्षेत्रों, संभावित स्मार्ट सॉल्यूशन की सूची तैयार करना	10 - अक्टूबर	15 - अक्टूबर	5
7		राइट - अप स्मार्ट सिटी प्रस्ताव - ऑनलाइन (सिटी प्रोफाइल - आत्म - मूल्यांकन सहित, प्रोफाइल के, नागरिक कार्य का राउंड 1)	15 - अक्टूबर	20 - अक्टूबर	5
8		दृष्टि और लक्ष्यों सहित सिटी - वाइड संकल्पना योजना का विकास	15 - अक्टूबर	20 - अक्टूबर	5
9		स्मार्ट सलूशन के अधिकार / प्रौद्योगिकी मेले	15 - अक्टूबर	31 - अक्टूबर	10
10		पैन - सिटी सॉल्यूशन को अंतिम रूप देना	20 - अक्टूबर	31 - अक्टूबर	10
11		क्षेत्र - आधारित विकास को अंतिम रूप देना	20 - अक्टूबर	31 - अक्टूबर	10
12		राइट - अप स्मार्ट सिटी	25 - अक्टूबर	05 - नवम्बर	1 5

		प्रस्ताव - ऑनलाइन (रणनीतिक योजना, अखिल - शहर समाधान(ओं), क्षेत्र - आधार पर विकास, दौर 2 नागरिक कार्य)			
13		राइट - अप स्मार्ट सिटी प्रस्ताव - ऑनलाइन (वित्तपोषण और कार्यान्वयन योजना)	31 - अक्टूबर	05 - नवम्बर	5
14		ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करना - नागरिकों के साथ कार्यान्वयन योजना तथा वित्त पोषण और के साथ पैन - सिटी सॉल्यूशन तथा क्षेत्र - आधारित योजना पर चर्चा	05 - नवम्बर	15 - नवम्बर	1 0
15	तीन	अंतिम प्रस्ताव - डाटा, सूचना, आदि के आधार पर परिष्कृत करें	15 - नवम्बर	20 - नवम्बर	5
16		नागरिकों के साथ अंतिम स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पर चर्चा	20 - नवम्बर	25 - नवम्बर	5
17		अंतिम प्रस्ताव की तैयारी - ऑनलाइन (स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के सभी वर्ग, नागरिक कार्य का राउंड 3 सहित)	25 - नवम्बर	30 - नवम्बर	5
18		राज्य सरकार को प्रस्तुत		30 - नवम्बर	1
19		शहरी विकास मंत्रालय को अग्रेषण (समय 15 दिसंबर, 2015)	दिसम्बर - 01	दिसम्बर - 10	10
20		स्पिल - ओवर गतिविधियां			5